

Ex/Sans/ED/4.7/69/2018

BACHELOR OF ARTS EXAMINATION, 2018

(2nd Year, 4th Semester)

SANSKRIT (ED)

Course : 4.7

[Ancient Indian Political Thought]

Full Marks : 30

Time : Two Hours

The figures in the margin indicate full marks.

1. Answer any *four* of the following questions : 4

নিচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন চারটির উত্তর দাও।

(a) Write the meaning of the word -त्रिवर्ग?

त्रिवर्ग- शब्दের অর্থ লেখ।

(b) What lies at the root of the vices ?

ব্যসনের মূল কারণ কী?

(c) 'राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः।'

What is the धर्म mentioned here ?

এখানে ধর্ম বলতে কী নির্দেশ করা হয়েছে?

(d) What is meant by the word 'जाङ्गलदेशः' ?

जाङ्गलदेशः বলতে কী বোঝায়?

[Turn over]

[2]

(e) Disjoin all the *Samdhis* and rewrite the following sentence.

सन्निविच्छेदपूर्वकं वाक्यं पुनराय लेख।

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः।

(f) How many वर्णs and आश्रमs are mentioned in the Manusamhitā ?

मनुसंहिताय वर्ण एवं आश्रम कय प्रकार ँ की की?

2. (a) Discuss the opinion of Manu regarding the origin of the king. 4

राज्जार उंपत्ति विषये मनुर मत आलोचना कर।

(b) From whom how many branches of learning should be mastered by a king ? 2

राज्जार कौन कौन विषय कार काछ थेके जाना उचित?

Or

What is the opinion of Manu regarding the origin of the sceptre ? 4

दण्डेर उंपत्ति विषये मनुर मत की?

Which king is unable to implement the scepter ? 2

कौन राज्जा यथायथाभावे दण्ड प्रयोग करते पारैने ना?

3. Explain any *one* of the following : 5

ये कौन ँकटिर व्याख्या लेख।

(a) अघ्यात् काकः पुरोडाशंश्वावलिह्याद्धविस्तथा।

साम्यं च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्तेताधरोत्तरम्॥

[Turn over]

(b) एवंवृत्तसस्य नृपतेः शिलोज्छेनापि जीवतः ।

विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥

4. Give an idea of the qualities of the kings of the solar-dynasty. 6

सूर्यवंशेशर राजादेर गुणावलीर वर्णना दाओ ।

Or

Write short note on any two of the following :

ये कोन दूटिर संक्षिप्त टीका लेख ।

दिलीप, क्षात्रधर्म, वैवस्वतो मनुः ।

5. Translate the following verses into Bengali or English : 4

बांग्ला अथवा इंग्लेजि भाषाय अनुवाद कर ।

(a) न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः ।

व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता

(b) रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मन, परम् ।

न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः ॥

6. Explain :

ब्याख्या कर :

5

आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः ।

आगमैः सदृशारम्भ आरम्भसदृशोदयः ॥

Or

सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोऽभिवाविना ।

स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी कान्ता मेरुरिवात्मना ॥